ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office:

Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti,

Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001

Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in

Tel.: +91-9711663881 | CIN: L51503HR1985PLC121303

Ref.No.: AIL/BSE/2025-26 Date: 26/08/2025

To
The Manager
Listing Department
BSE Limited,
Phiroze Jee Jee Bhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai - 400001

Security Code No.: 539189

<u>Subject: Submission of Newspaper publication in respect of Notice of 40th Annual General Meeting (AGM) and e-voting information.</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper Publication published in newspapers namely Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on 26th August, 2025, in respect of Notice of 40th Annual General Meeting and e-voting information to shareholders.

The aforesaid Newspaper Publications are also uploaded on Company's website.

You are requested to kindly take the same on record and oblige.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Adhbhut Infrastructure Limited

Shivani Dixit Company Secretary & Compliance Officer

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED Regd. Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 CIN No.: U67190MH2008PLC187552

DEMAND NOTICE

Interest Act, 2002 ("Act") read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 ("Rules").

Whereas the undersigned being the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Limited (TCHFL) under the Act and in exercise of powers conferred under Section 13 (12 read with Rule 3 of the Rules already issued detailed Demand Notice dated below under Section 13(2) of the Act, calling upon the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s) (al singularly or together referred to "Obligors")/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amount mentioned in the respective Demand Notice, within 60 days from the date of the respective Notice, as per details given below. Copies of the said Notices are served by Registered Post A.D. and are available with the undersigned, and the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours.

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Obligor(s /Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to TCHFL, within 60 days from the date of the respective Notice/s, the amount indicated herein below against their respective names. together with further interest as detailed below from the respective dates mentioned below in column (d) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Obligor(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to TCHFL

by the said	Obligor(s) respectively.		
Loan	Name of Obligor(s)/Legal	Total Outstanding Due	Date of Demand
Account No.	Heir(s)/Legal Representative(s)	Rs. as on below Dates	Notice & NPA Dat
01000100	Mr. Pankaj Kumar	As on 13/08/2025, an	13-08-2025
	(Borrower) &	amount of Rs. 11,25,817/-	&
	Mrs. Chandra Kala	(Rupees Eleven Lakh Twenty	03.08.2025

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All piece & parcels of Residential Plot having an area admeasuring 29.26 Sq Mtr which is part of Khasra No. 1237, Bihar man Nagla, Tehsil and District Bareilly, Uttar Pradesh with all common amenities under sale deed. Boundaries: East - House of Deewan, West - House of Seller, North - Rasta 8' Feet, South - Rasta 8 Feet

Five Thousand Eight Hundred

Seventeen Only)

NORDIAN CO	Mr. A Tulasa Rao (Borrower) & Mrs. Neelam (Co-Borrower)	As on 13/08/2025, an amount of Rs. 14,74,372/- (Rupees Fourteen Lakh Seventy Four Thousand Three Hundred Seventy Two Only)	13-08-202 & 07.08.202
------------	--	---	-----------------------------

Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties: All Piece & Parcels of: Residential Flat No. 302, admeasuring 650 sq. ft. in the project "Sa Homes- 2", situated at Plot no.-8, Sai Graden- 7, Shahberi Village Pargana and Tehsil Dadri District Gautam Buddh Nagar, Noida Uttar Pradesh- 201301, with all common

	under builder buyer agre	
9764922	Mr. Surendra Kumar (Borrower) & Mrs. Mira Kumari	As on 1 Rs. 8,96 Ninety

Pradesh-201308, with all common amenities under BBA.

(Co-Borrower)

13/08/2025, an amount of 5,008 /- (Rupees Eight Lakh Ninety Six Thousand Eight Only)

(Co-Borrower) Description of the Secured Assets / Immovable Properties / Mortgaged Properties All Piece & Parcels of: Flat No. H-803, on 8th Floor, admeasuring 1095 sq. ft., Tower-H, in the project 'Gayatri Aura', plot no. GH- 11, Sector- 1 Greater Noida (West) Uttar

with further interest, additional Interest at the rate as more particularly stated in respective Demand Notices dated mentioned above, incidental expenses, costs, charges etc incurred til the date of payment and/or realization. If the said Obligor(s) shall fail to make payment to TCHFL as aforesaid, then TCHFL shall proceed against the above Secured Asset(s) Immovable Property(ies) under Section 13(4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Legal Representative(s) as to the costs and

he said Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) are prohibited under the said Act t transfer the aforesaid Secured Asset(s)/Immovable Property(ies), whether by way of sale lease or otherwise without the prior written consent of TCHFL. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for mprisonment and/or penalty as provided under the Act.

DATE :- 26-08-2025 PLACE :- NOIDA, BAREILLY For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Sd/- Authorised Officer



Bampsl Securities Limited Reg. Off. 100A -Cycle Market, Jhandewalan Extn. New Delhi-110055 | Phone No.: 9810017327 Email ID: bamps/securities@yahoo.co.in

www.bampslsecurities.co.in | CIN No.: L65100DL1995PLC065028

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 29th, 2025 at 5.00 P.M. through Video conferencing ('VC')/OTHER Audio Visual Means ('OAVM') Facility to transact the following business to transact such Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the

Electronic copy of Notice of 30th AGM and instructions for remote evoting and Annual Report 2024-25, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) for communication purposes. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2024-25 and login details for e-voting.

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com providing Folio number. Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Shri Bhisham Kumar Gupta, Managing Director, Bampsl Securities Limited, Email: bampslsecurities@yahoo.co.in

The details pursuant to the provisions the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given here under:

- 1. The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means.
- Date and time of commencement of voting through electronic means: September 26, 2025 at 9:00 A.M.
- Date and time of end of voting through electronic means: September 28, 2025 at at 5:00 P.M.
- Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m on September 28, 2025
- 5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the AGM is September 22, 2025
- 6. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 22, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote evoting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.
- 7. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members.
- 8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- 9. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only i.e. on September 22, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting.
- 10. The Notice of AGM is displayed on the Website of Company on www.bampslsecurities.co.in and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com
- 11. In case of any gueries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990

The Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 22, 2025 to September 30, 2025 (both days inclusive) for the purpose of the AGM

By Order of the Board Sd/-

Bhisham Kumar Gupta

4. Amit Chaudhary

(Borrower), Rakhi

Chahar (Co-Borrower),

LHAGR00001509010

Date: 26.08.2025 | Place: Delhi

August 25, 2025 Managing Director

New Delhi

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001

Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in Tel.:+91-9711663881 | CIN: L51503HR1985PLC121303

NOTICETO SHAREHOLDERS Special Window for Re-lodgment of Transfer Request of Physical Shares

Pursuant to SEBI Circular SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025. the company is pleased to offer one time special window to physical shareholders for re-submitting lodgement request for the transfer of shares. This Special window is open from July 7, 2025 to January 6, 2026 and is specially applicable to cases where the original shares transfer requests were lodged prior to April 1, 2019 and were rejected/ returned/ not attended due to deficiency in the documents/ process or otherwise.

The shares re-lodged for transfer will be processed only in demat form during this period. Eligible shareholders may submit their request along with requisite documents to Company's Registrar and Transfer Agent at M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Ltd. At Beetal House, 3rd Floor, 99 Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukhdas Mandir, New Delhi-110062

> For Adhbhut Infrastructure Limited Sd/-

Place : New Delhi Date : 25.08.2025

shares

13-08-2025

07.08.2025

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration

under Part I of Chapter XXI of the Act

[Pursuant to section 374(b) of the Companies

Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies

(Authorised to Register) Rules, 2014]

. Notice is hereby given that in pursuance of

sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is

proposed to be made after fifteen days hereof

but before the expiry of thirty days hereinafter

RADIOLÓGICAL CENTER LLP. a LLP

registered under the LLP Act, 2008 may be

registered under Part I of Chapter XXI of the

Companies Act, 2013, as a company limited by

2. The principal objects of the company are as

To establish, construct, erect, maintain, run,

manage, develop, own, acquire, purchase,

undertake, improve, equip, promote, initiate.

encourage, subsidize & organize, hospitals,

dispensaries, clinics, diagnostic centres,

Radiological diagnostic centres, polyclinics,

pathology laboratories, research centres,

operation theaters, chemist shops, blood

banks, eye banks, kidney banks, nursing

homes, physiotherapy centres, investigation

centres and other similar establishments for

providing treatment & medical relief in all

branches by all available means to public at

large on suitable fees, concessional fees or

To carry on the business in India or elsewhere

to manufacture, produce, export, import, buy,

sell, fabricate, discover, develop, design

process, investigate, store, formulate, install

repair maintain recondition turn to account

exchange, sponsor, distribute or otherwise to

deal in all sorts of medicines

pharmaceuticals, chemicals, injections

drugs, formulations, apparatus, instruments

accessories, natural & artificial human body

parts, dead bodies and other allied goods &

articles and to do all incidental acts an things

necessary for the attainment of the object

Acopy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may

be inspected at the office at 22, Satya Viha

Colony, Lal Kothi, Jaipur 302015 Rajasthan

4. Notice is hereby given that any persor

objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar a

Central Registration Centre (CRC), Indian

institute of Corporate Affairs (IICA), Plot no. 6

8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon

Haryana), Pin Code - 122050, with in twenty

one days from the date of publication of this

notice, with a copy to the company at it

Dated this 25th August, 2025

SMFG

1. BIRJU SINGH (Proposed Director)

2. PREM LATA (Proposed Director)

Name(s) of Applican

on free of charge basis.

under these presents

registered office.

to the Registrar at Delhi that M/s. RAIPUR

Shivani Dixit Company Secretary

For All Advertisement Booking



Call: 0120-6651214

ADHBHUT INFRASTRUCTURE LIMITED

Registered Office: Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001 Email: adhbhut.ind@rediffmail.com | Website: www.adhbhutinfra.in Tel.: +91-9711663881 | CIN: L51503HR1985PLC121303

NOTICE OF 40th ANNUAL GENERAL MEETING AND EVOTING

Notice is hereby given to the Members of Adhbhut Infrastructure Limited ["Company"] that the 40th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Tuesday, 16th September 2025 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company at Begampur Khatola, Khandsa, Near Krishna Maruti, Basai Road, Gurgaon, Arjun Nagar, Haryana, India, 122001, to transact the businesses as set out in the notice of AGM. In compliance with the circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Securities and Exchange Board of India (SEBI), the electronic copies of Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been sent to shareholders whose name appear in the register of members as at the closing hours of business on Friday, 15th August 2025 and whose email address are registered with the depository participants or with the Company or M/s. Beetal Financial & Computer Services (P) Limited, Registrar & Share Transfer Agent, the emailing of the said documents has been completed on Saturday, 23rd August 2025. Further, the Company is pleased to provide members facility to exercise their right to vote on

the resolutions proposed to be passed at 40th Annual General Meeting (AGM) by electronic means ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of Central Depository Services (India) Limited (herein after referred as "CDSL") as agency to provide remote e-voting facility. Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, along with person whose names recorded in the Register of members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date of 9th September **2025** shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM. The Remote E-voting period will commence from Saturday, September 13, 2025 (9:00 a.m. IST) and will end on Monday, September 15, 2025 (5:00 p.m. IST). The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the meeting may attend the meeting held in physical mode but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

Further, the Company has appointed M/s AASK and Associates LLP (LLPIN-AAD-2934) to act as the Scrutinizer for conducting the e-voting process/ballot process in a fair and transparent manner. The result of remote e-voting and voting during the AGM shall be declared not later than 48 hours from the conclusion of AGM. The declared results along with Scruitinizer's Report shall be placed on the website of the Company at https://www.adhbhutinfra.in/ and also on the websites of Bombay Stock Exchange on which the shares of the Company are listed i.e. www.bseindia.com.

The Notice of AGM and Annual Report 2024-25 is available at company's website at www.adhbhutinfra.in and CDSL website www.evotingindia.com and also at BSE Website i.e www.bseindia.com. For the detailed instructions pertaining to remote e-voting, Members may refer in the section 'Notes' in the Notice of the 40th AGM.

If you have any queries or issues regarding E-Voting you can write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 02223058738 and 022-23058542/43. Members may also write to the company at adhbhut.ind@rediffmail.com.

By order of the Board For Adhbhut Infrastructure Limited

Place: Gurugram Date: 25.08.2025

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individuals advertising in its newspapers or Publications.

We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

Shivani Dixit **Company Secretary**

biodiesel

RAJPUTANA BIODIESEL LIMITED CIN: U74999RJ2016PLC056359, Phone No: +91-9509222333

(Formerly known as "Rajputana Biodiesel Private Limited") Registered Office: Jaipuria Mansion, Panch Batti, M.I. Road, Jaipur - 302001, Rajasthan Email: info@rajputanabiodiesel.com, Website: www.rajputanabiodiesel.com NOTICE OF 9TH ANNUAL GENERAL MEETING AND REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that 9th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Raiputana Biodiese Limited (Formerly known as "Rajputana Biodiesel Private Limited") ("the Company") will be held on Saturday, September 20, 2025 at 02:00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with the General Circular Nos 14/2020 dated April 8, 2020, 13/2020 dated April 13, 2020, General Circular Nos. 20/2020 dated May 5, 2020, 02/2021 dated January 13, 2021, 19/2021 dated December 8, 2021, 02/2022 dated May 5, 2022, 10/2022 dated December 28, 2022, 05/2023 dated September 25, 2023, 09/2024 dated September 19, 2024 insued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022, SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/A dated January 5, 2023, and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated October 7, 2023 and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 3, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") to transact the business(es) as set out in the Notice calling the AGM, without the physical presence of the Members at a common venue. The Members will be provided with the facility to attend the 9th AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at www.evoting.nsdl.com under the Members login

by using the e-Voting credentials. Electronic copies of the Notice of the 9th AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 have been sent to all the members on August 25, 2025, whose e-mail IDs are registered with the Company /Depository Participant(s). The copy of the Notice of the 9th AGM along with the Annual Report is also available on the website of the Company and the same can be accessed at www.raiputanabiodiesel.com, website of the Stock Exchanges on which the shares of the Company are listed i.e., National Stock Exchange of India at www.mseindia.com and the website of the National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. E-VOTING INFORMATION

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of The Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India Blisting Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard on General Meetings (\$5-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (as amended), the Company is providing e-voting facility to its Members through National Securities Depository Limited (NSDL) to exercise their right to vote electronically on resolutions proposed to be transacted at the 9th AGM of the Company.

a) A person whose name is recorded in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e., Saturday, September 13, 2025, only shall be entitled to avail the facility of remote evoting or e-voting at the AGM.

In this regard, the Members are hereby further informed that:

a) Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of 9th AGM and holding shares as on the cut-off date i.e., Saturday, September 13, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if a person is already registered with NSDL for remote e-voting then existing user ID and password can be used for casting vote. The remote e-voting period Commences on Wednesday, September 17, 2025 at 10.00 A.M (IST) and ends on

Friday, September 19, 2025 at 05.00 P.M (IST). The remote e-voting shall not be allowed after 05.00 PM. on Friday, September 19, 2025 and the same will be disabled by NSDL. f) Members who have not cast their vote through remote e-voting and are present in the AGM through

VC/OAVM, shall be eligible to vote through e-voting at the AGM. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM through

VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again. The detailed procedure/instructions for Joining the AGM through VC/QAVM and casting of votes through

remote e-voting and e-voting at the AGM are given in the Notice of the AGM. g) The Board of Directors has appointed Mr. Atul Mehta (M.No.: FCS 5782 C.P.No.:2486), Partner of M/s. Mehta and Mehta, Company Secretaries, as the Scrutinizer to scrutinize the E-voting process in fair and transparent manner. In case of any queries/grievances pertaining to voting by electronic means or joining the AGM through VC/QAVM, the Members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and remote e-voting user manual for members available at www.evoting.nsdi.com under help section or call on : 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre,

Senior Manager (NSDL) at pallavid@nsdl.com or may write at the postal address of NSDL at 3rd Floor, Naman

Chamber, G Block, Plot No- C-32, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra- 400051. For Rajputano Biodiesel Limited

Place: Jaipur Date: August 25, 2025

Rohit Kumar Gauttam Company Secretary and Compliance Officer M. No. A56199

est @ 17.35 p.a. till the

realization.

Loan No.

LAP0605200000005023459

Rs.12,97,348/- (Rupees

Twelve Lakh Ninety Seven

Thousand Three Hundred

Fourty Eight Only) payable

as on 07/06/2025 along with

interest @ 16.35 p.a. till the

realization.

Loan No.

HL00649100000005030383

Rs.19,52,178/- (Rupees

Nineteen Lakh Fifty Two

Thousand One Hundred

Seventy Eight Only)

payable as on 07/06/2025

along with interest @ 13.35

p.a. till the realization.

Loan No.

LAP0659200000005031539

Rs. 905366/- (Rupees Nine

Lakh Five Thousand Three

Hundred Sixty Six Only)

payable as on 07/06/2025

along with interest @ 15.35

p.a. till the realization.

Loan No.

HL00399100000005021479

Rs. 1889158/- (Rupees

Eighteen Lakh Eighty Nine

Thousand One Hundred

Fifty Eight Only) payable

as on 07/06/2025 along with

interest @ 12.85 p.a. till the realization.

07/06/2025

07/06/2025

07/06/2025

07/06/2025

21/08/2025

22/08/2025

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE

Branch Office: ICICI Bank Limited Plot No-23, Shal Tower, 3rd Floor, PICICI Bank New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi-110005

The Authorised ICICI Bank Officer under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued Demand Notices to the borrower(s) mentioned below, to repay the amount mentioned in the Notice within 60 days from the date of receipt of the said Notice. Having failed to repay the amount, the Notice is issued to the borrower and the public in general that the

undersigned has taken symbolic possession of the property described below, by exercising powers

conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-

mentioned dates. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with

the property. Any dealings with the property will be subject to charges of ICICI Bank Limited. Name of the Date of Demand Notice/ Amount in Demand Description of Property/ Name Borrower(s)/Loan Account Number Date of Symbolic Branch Notice (Rs) 1. Shri Sai Jewellers/ Sanjeev | Commercial Property Shop Situated at Bazar March 04, 2024 Chandausi Sambhal Khubchandra/ Bada Bazar, Chandausi, Tehsil Kumar Agarwal/ Jyotsna 64,56,975.00/-Agarwal/ 158605500243 | Chandausi, District Sambhal, Uttar Pradesh/ August 20, 2025

The above-mentioned borrowers(s)/guarantors(s) is/are hereby issued a 30 day Notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold after 30 days from the date of publishing this Notice, as per the provisions under Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002. Date: August 26, 2025 Sincerely Authorised Officer Place: Chandausi & Sambhal

For ICICI Bank Ltd.



GRIHUM HOUSING FINANCE LIMITED (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Ltd.) Registered Office:- 6th Floor, B Building, Ganga Trueno, (For Immovable) Lohegaon, Pune, Maharashtra-411014. Property)

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of Grihum Housing Finance Limited (formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited as the name Poonawalla Housing Finance Limited changed to Grihum Housing Finance Limited with effect from 17 Nov 2023 (Previously known as Magma Housing Finance Limited and originally incorporated with name of GE Money Housing Finance Public Unlimited Company) herein after referred as Secured Creditor of the above Corporate/ Register office under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "said Act") and in exercise of the powers conferred under Section 13 (12) of the said Act read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a demand notice below dated calling upon the below Borrowers to repay the amount mentioned

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules of the Security Interest Enforcement Rules 2002 on this dates as mentioned herein below. The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of secured Creditor the amount and interest thereon. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the

secured assets. Details of Property taken in possession are herein below Sr. Name of Possession Date of statutory | Amount in Demand Notice **Description of Property**

No.	Borrowers	Description of Froperty	taken Date	Demand Notice	(Rs.)
1.	Chandra shekhar, Shankuntla Devi Gole, Tejpal Singh Gole	All that piece and parcel of the freehold residential Plot No. Unspecified, Land measuring 70.00 Sq.yrds., i.e., 58.52 Sq.mtrs., Out of Khasra No. 1/1min, situated in the Layout Plan of Village Dhundhaheda, Pargana Loni, Tehsil & Distt. Ghaziabad. Boundaries of Land: East: Other Land Owner, West: Other Land Owner, North: Road 18 Ft, South: Other Land Owner.	20/08/2025	07/06/2025	Loan No. HM0399H18100061 Rs.6,67,992/- (Rupees Six Lakh Sixty Seven Thousand Nine Hundred Ninety Two Only) payable as on 07/06/2025 along with interest @ 17.85 p.a. till the realization.
2.	Amit Awana, Braj Kishor, Kamlesh	All that piece and parcel of the Residential House of Plot No.A 211 Tolalarda measuring 198 Sd.yus 14 165 55 84 Mtrs. area 100 Sq.yds out of total Land 01760 Hect in the Khasra No-335 and Area 98 Sq.yds, out of total Area 0.0510 Hect in the Khasra No.628 stated in the village Luharli, Pargana and Tehsil Dadi, Distt-Gautam Budh Naga:, Up (Hereinafter called the "Said Property"). Boundaries as Under: East: Plot of Seller, West: Shiv Mandar, North: Road 20 It. Wide, South: Plot of Seller.	20/09/2025	07/06/2025	Loan No. HF0245H20100297 Rs.8,50,273/- (Rupees Eight Lakh Fifty Thousand Two Hundred Seventy Three Only) payable as on 07/06/2025 along with interest @ 18 p.a. till the realization.
3.	Pardeep Bhurji, Laxmi Pardeep, Suresh Chand	All that piece and parcel of the Property bearing Municipal No.656, (As Per Valuation), Land Area Measuring 80 Sq.yards, Out of total area 316 Sq.yards, Falling under Khasra No.266, situated in the Village Kaila, Kailash Nagar, Pargana Loni, Tehsil and Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh, (Hereinafter called the "Said Property"). Boundaries as under: East: Road 6 Feet Wide, House of Punjabi, West:		07/06/2025	Loan No. LAP0245200000005002265 Rs.19,75,077/- (Rupees Nineteen Lakh Seventy Five Thousand Seventy Seven Only) payable as on 07/06/2025 along with interest @ 17.35 p.a. till the

House Of Bimla Devi, **South**: House of Sukhcharan All that piece and parcel of the one commercial Shop on First Floor Private No.102-FF, constructed on K.C.C. Building Old No.293, 315, 289, Presenty No.308, 316 & 317, Land Area Measuring 7.32 Farjana, Mohd Sq.mts., situated at K.C.C. Building Kaiser Gani, Delhi Road, Meerut. Boundaries: East: Unit No 103FF, West: Common Stairs Passage, North Common Stairs Passage, South: Property of others.6 00065/6 Gag. All that piece and parcel of the Freehold residential Flat No.SF-02 on second floor without roof right: rear Side Eastern Portion area measuring 66.88 Sq.mtrs Built on Plot No.B-62, Out of Khasra No. 1310 situat

Road 15 Feet Wide. House of Ram Saroop. **North**

n the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice.

Rashida Loni Distt. Ghaziabad Uttar Pradesh. (Hereinafter Rashida Referred to as "said Property (Herein after Referred ro as the Said Property). Boundary as per:- East: Plot No.B-67, West: Road 9 Ft. Wide, North: Plot No.B-63, South: Plot No.B-61. All that Piece and Parcel of the Residential Plot Area Measuring 73 Sq. Yards I.E. 61.03 Sq. Meter, Out of Khasra No. 357, Situated At Village Jalpura, Pargana And Tehsil: Dadri, District: Rekha Rani, Goutam Budh Nagar, Utrtar Pradesh. And 20/08/2025 **Ajeet Singh**

Boundaries of the Property. (As Per Sale Deed) East: Khet of other, West: House of Mrs. Ramvati North: Plot of Mrs. Veervati W/o. Mr. Hansram South: Rasta 15 Foot Wide, All that Piece and Parcel of the Flat No. UGF-2, On Upper Ground Floor, LHS, Side Portion, Without

Roof Rights, Built on Residential Plot No. M.M.-71 Area Measuring 196 Sq.Yds., I.E., 163.87 Sq. Mtrs, Situated At Residential Colony DLF Ankur Nishant Bajaj, Vihar, In the Area of Village Sadullabad, Pargana 22/08/2025 Loni, Tehsil & District Ghaziabad, U.P. (Hereinafter Called The Said Property). Boundaries: Sale Deed Dated 20.04.2022 East: 40 Ft. Wide Road, West:

Place: Delhi Sd/- Authorised Officer Dated: 26-08-2025 Grihum Housing Finance Limited (Formerly known as Poonawalla Housing Finance Limited)

02-05-2025

1671292/-

Agra

Agra

exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

SMFG India Home Finance Co. Ltd.

Regd. Off.: Commerzone IT Park, Tower B, 1st Floor, No. 111, Mount Poonamallee Road, Porur, Chennai – 600116, TN

issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has Taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMHFC" for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

Grihashakti Corporate Off.: 503 & 504, 5th Floor, G-Block, Insipre BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051

POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(1)]

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Co. Ltd. a Housing Finance

Company [duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)] (hereinafter referred to as "SMHFC") under

Secuitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in

whatsoever.

SI.	Name of the Borrower(s)	Description of Secured Assets	Demand Notice	Date of
No.	/ Guarantor(s) LAN	(Immovable Property)	Date & Amount	Possession
1.	LAN :- 611639511701118 1. Sanjay Bansal, S/o. Iswar Saran 2. Meenu Bansal, W/o. Sanjay	All That Shop Situated on Ground Floor Measuring 19.02 Sq.mtrs, Situated At Mauza Abadi Kutubpur Mustchkam, Pargana Sarsawa Tehsil Nakur Distt. Saharanpur, 2- (B) 1 All That Shop Situated on Ground Floor, Measuring 7.25 Sq. Mtrs Totally Covered Situated At Mauza Abadi Kutubpur Mustehkam, Pargana Sarsawa Tehsil Nakur Distt. Saharanpur Total Measuring 16.17 Sq.mtrs, North: Streeet 10 Feet Wide South: House of Seller, East: Shop of Purchaser, West: Property of Seller.	15.05.2025 RS. 32,10,262.36/- (Rs. Thirty Two Lakh Ten Thousand Two Hundred Sixty Two & Paise Thirty Six Only)as on	21.08.2025
2.	LAN: - 618639211705143 1. Satendra Singh (Borrower) (Through Legal Heir of Deceased Borrower) Beena Kumari, W/o. Satendra Singh 2. Sachin Singh, S/o. Satendra Singh 3. Lucky Singh, (Minor - Through Natural Gaurdian Beena Kumari) S/o. Satendra Singh 4. Shanu Singh, D/o. Satendra Singh 5. Kanth Shree, W/o. Jay Singh	Landbearing Khata No. 00165, Khasra No. 27Rakba No. 0.3570 Hct.area Measuring, 167.22 Sq Mtrs Situated At Mauza Bhadesi Mafi Pargana Kol Tahsil Kol Distt. Aligarh, East: Road 20 Fit Wide, West: House of Urmila Devi, North: Plot of Harendar Singh, South: Seller Satya Prakas	(Rs. Twenty Lakh Forty Nine Thousand Three Hundred Twenty	22.08.2025
-	•			Sd/-

Place: Aligarh/ Saharanpur **Authorized Officer** Date: 21.08.2025 / 22.08.2025 SMFG INDIA HOME FINANCE CO. LTD.

PHYSICAL POSSESSION NOTICE FICICI Home Finance Registered Office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East)
Mumbai-400051. Corporate Office: ICICI HFC Tower, Andheri Kurla Road, J.B. Nagar, Andheri (E), Mumbai - 400 059. Branch Office: 1st Floor, B-20, Awas vikas, Delhi road, Saharanpur - 247001. Branch Office: 3rd floor, 302-303. Pearl Bert Hights-L, Netaji Subhash Place, Wazirpur, Pitampura, Delhi - 110034 Branch Office: Office No-8, 2nd

loor, Sumriddhi Business Suites, 38/4-A, Sanjay Place Agra - 282002. Whereas The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Home Finance Company Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her

under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Home Finance Company Limited. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Sr. No.	Co-Rorroworfel Loan	Description of property/ Date of Possession	Date of Demand Notice/Amount in Demand Notice (Rs.)	
1.	Vijaypal (Borrower), Varun Kumar (Co-Borrower), Suman (Co-Borrower), Dipanshu (Co-Borrower), LHSAH00001520785	1476 Khasra No 1476 Situated At Wake Gram Islam Nagar Pargana Tehsil Nakur Distt Saharanpur Saharanpur 247001 1476 Saharanpur Uttar Pradesh 247001. Bounded By-North: 18' Wd Road / 23.1 Ft, South: Plot Of Seller / 23.1 Ft, East: Plot Of Seller / 39 Ft, West: Plot Of Seller / 39 Ft. Date Of Possession: 22-Aug-25	Rs. 1677107.38/-	Sahar- anpur
2.	Vijaypal . (Borrower), Varun Kumar (Co-Borrower), Suman (Co-Borrower), Dipanshu (Ca-Borrower), LHSAH00001532540	1476 Khasra No 1476 Situated At Wake Gram Islam Nagar Pargana Tehsil Nakur Distt Saharanpur Saharanpur 247001 1476 Saharanpur Uttar Pradesh 247001. Bounded By-North: 18' Wd Road / 23.1 Ft, South: Plot Of Seller / 23.1 Ft, East: Plot Of Seller / 39 Ft, West: Plot Of Seller / 39 Ft. Date Of Possession: 22-Aug-25	Rs. 82098.34/-	Sahar- anpur
3.	Monika Arya (Borrower), Chandan Jha (Co-Borrower), LHPTU00001549186.	Property Bearing No. WZ-43/3-A, First Floor(without Roof Rights), Built On Plot No. 224, Out Of Khasra No. 29, Situated In The Area Of Village Nangli Jalib, Colony Known As Krishna Puri, Gali No. 12, Tilak Nagar- Delhi-110018, Land Area Measuring 50 Sq. Yrds. Le. 41.80 Sq. Mtrs	Rs. 1821300.86/-	North Delhi - Pitam- pura

Bounded By-North: Other Plot, south: Other Plot, east: Road 10 Ft, west: Portion Of Plot. Date Of Possession: 20-Aug-25

Plot No 156 Bankey Shree Radhey Krishna Colony Mauja

Ramnagar Khandoli Tehsil Etmadpur Distt Agra Uttar

296 Plot on Part of Khasra No. 296, Situated A Mauia Mita. Sanjay Kumar Agrawal 23-05-2025 (Borrower), Kartik Agrawal Tehsil And District Hathras 204101 Hathras 1 Hathras (Co-Borrower), Kanchan Agrawal (Co-Borrower), LHAGR00001584148 Uttar Pradesh 204101. Bounded By- North: 25ft Wide Road, South: 9mtr Wide Road, East: 8ft Wide Road, West: Seller Plot. **Date of Possession: 21-Aug-25** 4016080/-The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the

provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Pradesh 282001. Date of Possession: 21-Aug-25

epaper.financialexpress.com

Authorised Officer, ICICI Home Finance Company Limited

New Delhi

Parvei Parvei. ed at Hatar Enclave at Village Loni Pargana & Tehsil

Other Plot, North: Plot No. M.M.-70, South: 60 Ft. Wide Road. Admeasuring Area: - 196 Sq. Yds.

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 (कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(8) (ए) के मामले में

समर कुल होम अप्लायसेज लिमिटेड (सीआईएन: U51909DL2003PLC118431) जिसका पंजीकृत कार्यालयः 3 / 101, गली नं. 3, मैन सेवा धाम रोड मंडोली एक्सटे शन, मंडोली चुंगी के पास, उत्तर पूर्व, मंडोली, दिल्ली, भारत, 110093 में हैं, के मामले में

....याचिकाकर्ता एतदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 13 अगस्त, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की मांग की गई है । कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 वैब पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह (१४) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्यलैक्स, नई दिल्ली–110003 ईमेलः rd.north@mca.gov.in पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को जनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी

पंजीकृत कार्यालय: 3 / 101, गली नंबर 3, मैन सेवा धाम रोड मंडोली एक्सटेंशन, मंडोली चुंगी के पास, उत्तर पूर्व, मंडोली, दिल्ली, भारत, 110093

मेसर्स समर कुल होम अप्लायंसेज लिमिटेड के लिए

दिनांक : 26.08.2025) सजीव कुमार गुप्ता (निदेशक) डीआईएन : 00994911

स्थान : नई दिल्ली

प्ररूप संख्या आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में } केन्द्रीय सरकार के क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी

क्षेत्र, राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6) (ए) के मामले में

थर्मोक्ल होम अप्लायसेज लिमिटेड (सीआईएन: U32109DL2006PLC145803) जिसका पंजीकत कार्यालय: 3 / 101, गली नं. 3. मैन सेवा धाम रोड मंडोली एक्सटें शन, मंडोली चुंगी के पास, उत्तर पूर्व, मंडोली, दिल्ली, भारत, 110093 में हैं, के मामले में

....याचिकाकर्ता (तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह आवेदक कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी प्रधिनियम. 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती हैं, जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए 11 अगस्त, 2025 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि करने की नांग की गई है । कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 वैब पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक को इस सूधना के प्रकाशन की तारीख से वादह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, दूसरा तल, पंडित दीनदवाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 ईमेलः rd.north@mca.gov.in पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक केपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी

पंजीकृत कार्यालय: 3 / 101, गली नंबर 3, मैन सेवा घाम रोड मंडोली एक्सटेंशन, मंडोली चुंगी के पास, उत्तर पूर्व, मंडोली, दिल्ली, भारत, 110093

राजीव गुप्ता (निदेशक) दिनांक : 26.08.2025

मैसर्स धर्मोकुल होम अप्लायंसेज लिमिटेड

डीआई एन : 00935526 स्थान : नई दिल्ली

"फॉर्म संख्या युआरसी-2" आधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के संबंध में सूचना देने वाला विज्ञापन कंपनी अधिनियम, २०१३ की धारा ३७४(बी) और कंपनी (पंजीकरण के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम

4(1) के अनुसार) . एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, इस मुचना के प्रकाशन के पंद्रह दिन पश्चात किन्तु तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, रजिस्ट्रार, दिल्ली को एव आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि मेसर्स रायप् रेडियोलॉजिकल सेण्टर एलएलपी, जो कि LLP अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत एक एलएलपी हैं, उसे कंपर्न अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI के भाग। के तहत शेयरे द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।

2. कंपनी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं: सभी प्रकार की चिकित्सकिय शाखाओं में उचित शतक रियायती शुल्क या नि:शुल्क आधार पर आम जनता के सभी तरह से उपचार और चिकित्सकीय राहत प्रदान वे उद्देशय से, अस्पताली, डिस्पैसरी, औषधालय, क्लीनिक डायग्रोस्टिक सेंटर, रेडियोलीजिकल डायग्रोस्टिक सेंटर पॉलीवलीनिक, पैशोलॉजी प्रयोगशालाएँ, अनुसंधान केंद्र, ऑपरेशन थिएटर, दवा दुकानें, रक्त बैंक, नेत्र बैंक किड़नी बैंक, नर्सिंग होम्स, फिजियोथेरंपी केंद्र, जांच केंद्र तथा इसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों की स्थापना, निर्माण, रखरखाव, संचलान विकास, प्रबंधन, स्वामित्व, अधिग्रहण, खरीद, कार्यभार संभाल, सुधार, सुसज्जित, प्रोत्साहन, सहयोग, सब्सिडी

भारत में या अन्यञ्ज व्यवसाय करने हेतू— सभी प्रकार की दवाओं, औषधियों, रसायतों, इजेक्शतों, इग्स फार्मुलेशन्स, उपकरणी, यंत्री, सहायक सामग्री, प्राकृतिक एवं कृत्रिम मानव आगों, मृत शरीरों तथा अन्य संबंधित वस्तुओं एवं सामग्रियों के निर्माण, उत्पादन निर्यात, आयात, क्रय, विक्रय, निर्माण, खोज, विकास, डिजाइन, प्रक्रिया, अनुसंधान, भंडारण, सूत्रण, स्थापना मरम्मत, अनुरक्षण, पुनः संशोधन, व्यापारिक लाभ है लाना, विनिमय, प्रायोजन, वितरण या अन्य किसी प्रकार से लेनदेन करना, और इन प्रयोजनों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सभी सहायक क्रियाएं करना।

प्रस्तावित कंपनी के डाफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन की एक प्रति का निरिक्षण कार्यालय 22, सत्या विहार कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर 302015 राजस्थान, भारत में किया जा सकता है।

4. एततद्वारा सुचित किया जाता है की कोई भी व्यक्ति जिसे इस आवेदन पर आपत्ति हो, वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर अपनी आपत्ति के विषय में लिखित रूप में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टिटबूट ऑफ़ कॉपॉरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लाट नंबर ६, ७, ८, सेक्टर ५, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिन कोड - 122050 में रजिस्ट्रार को सुर्चित कर सकता है, जिसकी एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को भी भेजी जाएगी।

आवेदकों का नाम 1. बीरजू सिंह (प्रस्तावित निदेशक) 2. प्रेमलता (प्रस्तावित निदेशक) दिनांक: 25 अगस्त, 2025

पी.एम श्री केंद्रीय विद्यालय न.-2 दिल्ली कैन्ट नई दिल्ली - 110010

विद्यालय में विधालय केंटीन, किराये पर टेंट का

सामान, खेल कृद के सामान, स्टेशनरी का सामान,

फ्लेक्स एवं बैनर एवं आयकर और जीएसटी भरने

के लिए प्रतिष्ठित/पंजीकृत फर्मी से मुहरबंद

प्रतिस्पर्धी निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा

फार्म विद्यालय के कार्यालय से सभी कार्य दिवसी में

पूर्वीहन 11.00 बजे से अपराहन 02.00 बजे तक

"KV NO.2 Shift 1VVN Account" 帝 中

में रु. 1000 / – का डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर

देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। सीलबंद निविदाएँ

इस सूचना के समाचार -पत्र में प्रकाशन के 15

दिनों के भीतर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

000

प्राचार्य

निविदा सूचना

क्षेत्रक्र्यः 1.183001 P2011PL C043209 रहित बंदः ६, लोडिया तालबा, छोटी बलाई दी.औ. कियादाल, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, मारत, 201307 टेलेकोर (1/20/2005246, किंग्र: inforesbersportslimited.com, वेबलब्द: www.sbcruportslimited.com

एसबीसी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

मध्यति के कर्त इतिवर्दी स्थापुर कार्यद्रोतक केलक्का के किस्पादक १३० फिन्टींग अमितान 'क्सन निरोक्तत' - राजाईटी और अन्य लंबीमा अवस्थिताहम और सेवरपारक सहस्रवित्य के निय साहित अवैतरिका/अवात दिया गए तकाब को

निर्माण किस्त पूर्व संरक्षण कोष ('आईईनियक') में त्यानांतरित होने हे रोवत जा तरे। परामीर्थे पनरपोर्ट्स निर्मार्टेड (उत्तराती सांपर्कें) के संराज्यतको को प्राचावत सुध्यक भी जाती है कि निर्माणक रिका पर्व तरक्षय निर्मा प्रविद्यालन ("अवविक्रीहरूर), कोजिरेट मध्यमें के मध्यान्य ("अमेरीर) के 10 कुलाई, 2025 के दान के आहुनार आधारी कोजी से 25 कुमई, 2225 से 6 मार्गस, 2225 तक 150 फिर्म का अभिनाम 'तथम मिरेशत' हुए दिशा है। इस अभिनाम के फैरन है तसी नेक मैनेकार्य किया है कि उर्पय हराकी का अध्या किया है की अध्या किया है का की है का अध्ये अपने के किया है और मानंद्रक विकास आहेत गाही दिए हैं था पूर्व के दिएए गए समर्थत और संवर्ध से अंग्रीक दिन्दी भी जनस्व का कामक दूर रहे हैं, तो वे कार्या तीत्रहार और हासका एवंड (अतरीर) कर्ते बिनलेवा स्वितेत प्रकृति निर्मितेत, (आतीत विभेक्त बित्रेत घर्क, अधिका अंबर ५५०-२, अर्था मंदिल, अलकारी केवन देश, अञ्चन मेटर के बाता में, अंदेरी ईनट, शुंबई, म्हलाह, ४००००० प्रवेत -प्राप्यक्षक्रकारक या ई-नेल अईडी. Invalcibles bigsharvonline, over पर निया करते हैं। केरकारक राज मी साम है कि वह अभिकार सकिए रूप में और क्रिक्ट रूप में सेवरावरकों तक वहुँकों के पिए सुस किया जात है तकि है अपने केव्य(मी, बैंक अधिनेत, नामकित वर्षात और रामके जनकारी आहि को अपकेट कर नकी और अपने अवैत्रीतक पास न किए गए रामनेत का

दाय कर रुपे तथि उनके सेवर और लाजन रहि को आईई मैठकर में लाजनित होने से रोकर जा रुपे।

fiptie 26.08.2025 resn - Dudyr

के विश् और उसकी सारह है code combés lidiés प्रस्कर: क्षीओन सर्व

फॉर्म नंबर आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के के अनुसरण में] कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन।

केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र, समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

मेसर्स अनुभूति एनालिटिक्स एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय **टावर-डी, डी-1601/16एफ, अमात्रा होम्स, जीएच-2सी** सेक्टर-10, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301 में है ।

आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें 6 अगस्त, 2025 के आयोजित वार्षिक आम बैठक / असाधारण आम बैठक स्थान टॉवर-डी, डी-1601/16एफ अमात्रा होम्स, जीएच-2सी सेक्टर-10, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत, 201301 में पारित विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी के संस्था के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है, ताकि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को "**उत्तर प्रदेश राज्य**" आरओसी कानपुर से "**मध्य प्रदेश राज्य**" आरओसी-ग्वालियर में स्थानांतरित कर सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत फॉर्म दाखिल करके एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने आपत्तियों को हलफनामे के साथ पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजी जाएगी:

दीपिका त्रिपाठी

मेसर्स अनुभूति एनालिटिक्स एलएलपी की ओर से

पुजा श्रीवास्तव नामित भागीदार (11047867)

नामित भागीदार (10724398)

मैत्रेयी त्रिपाठी नामित भागीदार (10724399)

एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN : L51505HP1993PLC031724 रजि. कार्यालय: ग्राम बैरसेन, पी.ओ. मंझोली, सोलन, तहसील-नालागद, सोलन, डिमाचल प्रदेश-170141, इंडिया,

GSTIN: 02AAACL987E1ZT ई मेल आईडी : Isindustries93@gmail.com, वेबसाइड : www.lsindustrieslimited.com, फोन नं 9805511297

शेयधारकों को सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुन : दर्ज करने के लिए विशेष विंडो एतद्वारा स्थित किया जाता है कि सेवी परिपत्र संख्या तेवी / एचओ / एमआईआरएसडी / एमआईआरएसडी-पीओडी / पी / सीआईआर / 2025 / 97 दिनांक 02 जुलाई, 2025 के अनुसरण में, कंपनी ने निवेशकों के लिए भीतिक शेयरों कें हस्तांतरण के लिए अनुरोध पुन : दर्ज करने हेतु एक विशेष छह महीने की अवधि खोली है, जो 01 अप्रैल, 2019 की समय सीमा से पहले दर्ज किए गए थे और दस्तावेजों / प्रक्रिया में कमी या अन्यथा के कारण अस्वीकार / वापस कर दिए गए / उपस्थित नहीं किए गए थें।

यह विंडो 07 जुलाई, 2025 से खुली है और 06 जनवरी, 2026 को बंद हो जाएगी । इस अवधि के दौरान, सभी पुन : जमा प्रतिभृतियों केवल डीमैट रूप में जारी की जाएंगी, और इस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए मानक प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जो शेयरवारक 31 मार्च, 2021 की पूर्व समय सीमा से बूक गए है, उनहें कंपनी के आरटीए यानी बीटल फाइनेज़ियल एँड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाग उठाने के लिए शेयरधारक के पास ढीमैट खाता होना चाहिए तथा हमारे आरटीए के पास

स्थानांतरण अनुरोध पुन : दर्ज करते समय उन्हें स्थानांतरण दस्तावेजी और शेयर प्रमाणपत्रों के साथ अपनी क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) भी उपलब्ध करानी होगी। भौतिक शेयरों के हस्तांतरण के लिए कानूनी रूप से मान्य और पूर्ण दस्तावेजों को पुन : जमा करने पर विधार किया जाएगा, जेडी स्वामित्व को लेकर कोई विवाद न हों। निवेशक अपना अनुरोध 08 जनवरी, 2026 तक हमारे आरटीए के पास नीचे दिए गए पते पर जमा कर सकते है

बीटल फाइनेशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बीटल हाऊसः तीसरा फ्लोर, 99. मदनगीर, बिहाइज एलएससी, नई दिल्ली-110062 फोन नं. 011-42959000-09, 011-29961281-283, फीक्स 011-29961284 येयसाइट : https://beetal.in/ ईमेल आईडी : beetalrta@gmail.com नोट : सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए / डिपीजिटी पार्टिसिपेंट

के पास अपनी ईमेल आईडी अपडेट करें। ख्यान : नालागढ दिनाक: 25.08,2025

हरता / निपन गीयर प्रबंध निदेशक बीआईएन : 02853571

कृते एलएस इंडस्ट्रीज लिमिटेंड

Danalean ()

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड कार्परिट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032

चंडीगढ़ शाखा : एस.सी.ओ. 350-351-352, तृतीय तल, सेक्टर-34 ए, चंडीगढ़-160022 यमुनानगर शाखा: एससीओ.-105, प्रथम तल, सेक्टर-17, हुडा कॉमर्शियल बेल्ट, निकट पेट्रोल पम्प, कोर्ट रोड, जगाधरी, यमुना नगर-135003

कब्जा सुचना - नियम 8 (1) के अधीन

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं, से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भूगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पिठत उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभृत आस्ति छ्डा सकते हैं।

क्र. सं	कर्जदार/रों का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि		कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(7)	(ৰী)	(सी)	(ৰী)	€)	(एफ)
1.	ऋण खाता संख्या HE01YAM00000044131 कर्जदार एवं सह—कर्जदार : 1. नरेश कुमार शर्मा पुत्र रामेश्वर दास शर्मा, 2. पूनम शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा, 3. मुकेश शर्मा पुत्र नरेश कुमार शर्मा, 4. निर्मला शर्मा पत्नी नरेश कुमार शर्मा, 5. यश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा, 6. रिवर्सडेल	17–12– 2024		संपत्ति का क्षेत्रफल 302 वर्ग गज है, मकान संख्या 1228, वार्ड संख्या 13 कस्बा रादौर में स्थित है, जो बिक्री विलेख संख्या 313 दिनांक 09—06—1998 के अनुसार पंजीकृत है, जिसे सुधार विलेख संख्या 490 दिनांकित 04—06—2015 के अनुसार संशोधित किया गया है।	22-08-2025

एंटरप्राइजेज इसके मालिक (नरेश कुमार शर्मा) के माध्यम से, सभी निवासी : मकान नंबर 3132/13, शिव कॉलोनी, शिव मंदिर के पास, वार्ड नंबर 13, रादौर (ग्रामीण) (45), रादौर, यमुना नगर 135133., 7. रिवर्सडेल एंटरप्राइजेज इसके मालिक (नरेश कुमार शर्मा) के माध्यम से, अन्य पता : टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, रादौर, यमुना नगर 135133.

तिथि : 26-08-2025 प्राधिकृत अधिकारी मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड स्थान : चंडीगढ़ / यमुनानगर

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः बेगमपुर खटौला, खांडसा, नजदीक कृष्णा मूर्ति, बसई रोड, गुड़गाँव, अर्जुन नगर, हरियाणा, इण्डिया, 122001 ई—मेल: adhbhut.ind@rediffmail.com । वेबसाइट: www.adhbhutinfra.in

> Tel.:+91-9711663881 | CIN:L51503HR1985PLC121303 शेयरधारकों के लिए सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दाखिल कराने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/ 2025/97 दिनांक जुलाई 02, 2025, के अनुसार, कम्पनी भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए एक बार खोली जाने की पेसकश करने में प्रसन्न है। यह विशेष विंडो 7 जुलाई, 2025 से 6 जनवरी, 2026 तक खुली है और विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होगी जहाँ मूल शेयर हस्तांतरण अनुरोधों को अप्रैल 01, 2019 से पहले पुनः प्रस्तुत किये गये थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया अथवा अन्य कमियों के कारण अस्वीकार/वापस कर दिये गये थे।

इस अवधि के दौरान विंडो हस्तांतरण के लिए पुनः दाखिल किये गये शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैट मे ही किया जायेगा। योग्य शेयरधारकके से अनुरोध है कि वे अपेक्षित कागजात कम्पनी के रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट बीटेल फाईनेसियल एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, बीटेल हाऊस, तीसरी मंजिल, 99 मदनगिरी, लोकल शापिंग सेन्टर के पीछे, दादा हरसुखदास मंदिर के नजदीक,नई दिल्ली -110062 को प्रस्तुत करें।

> कृते अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ता०/-

स्थान : नई दिल्ली शिवानी दीक्षित तिथि : 25.08.2025 कम्पनी सचिव

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुंबई- 400013, TATA सीआईएन न : U67190MH2008PLC187552

मांग सूचना प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ परित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 ("अधिनियम") की घारा 13(2) के अंतर्गत।

जबकि, अयोहस्ताशरकर्ता ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (टीसीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत तथा नियमावली के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, पहले ही अधिनिधम की धारा 13(2) के अंतर्गत विस्तृत मीग सूचनाए दिनाकित निम्नानुसार निर्गत कर दी हैं, जिन सूचनाओं में चधारकर्ता(ओं) / सह-उधारकर्ता(ओं) / गारंटर(रॉ) (सभी एकल रूप में अथवा त्रंयुक्त रूप में "वाधित्वधारकों यानी ऑब्लिगर्स" के रूप में लंबर्गित)/विधिक उत्तराधिकारी(रिया)/विधिक प्रतिनिधि(या), जिनकी सुची नीचे दी गई है, सभी को संबंधित मीन सूचना / ओ में अंकित बकाया धनराशियों का. संबंधित सूचना / ओ की तिथि से 80 दिवसों के अंदर, नीथे दिए गए विधरणों के अनुसार, भुगतान करने को कहा गया था। उक्त सूधनाओं की प्रतियों पंजीकृत डाक ए.डी. हारा प्रेषित की गई थी तथा जो अब मी अधोहरताश्वरकर्ता के पास उपलब्ध हैं. तथा चका दायित्वकरक(गण) / विधिक चत्तराधिकारी(गण) / विधिक प्रतिनिधि(गण), यदि वे ऐसा करने के द्रव्युक हैं, किसी भी कार्यदिवस पर सामान्य कार्यालय समयावधि में अधोहस्ताधरकर्ता से संबंधित प्रति/याँ प्राप्त कर लें।

तपरोक्त के संबंध में, एतदद्वारा उक्त दायिल्यारक(कों)/विधिक तत्तराधिकारी(रियां)/विधिक प्रतिनिधि(यां) करे एक बार पुनः सृचित किया जाता है कि टीसीएचएकएल को. संबंधित सूचना/ओं की तिथि से 60 दिवसों के अंदर, उनके संबंधित नामों के सम्बद्ध यहां नीचे इसमें नीचे उहिलखित धनराशियों का, उक्त दायित्वधारक(कों) द्वारा निष्पादित ऋग अनुबंध एवं अन्य प्रलेखों / आलेखों, यदि कोई, वो साथ पठित, निम्न स्तम (प) में अंकित संबंधित तिथियों से लेकर कं भुगतान तथा/अश्रया वसूली होने की तिथि तक आकत्तित होनेवाले निम्न विवरणितानुसार भागी स्थाज के साथ भुगतान करें। ऋण के नियत प्रतिभुगतान की प्रतिभृति के रूप में, उक्त वाधित्वधारक(की) द्वारा टीसीएवएफएल के पास क्रमहाः निश्नलिखित प्रतिनृत परिसम्पत्ति(याँ) को बंधककृत किया गया है।

ऋण	दाफिक्मारक(कों) /विधिक जनसम्बद्धाः	कुल बकावा देवराशि (रु.)	माँग जुवना की तिथि
खाता सं	(रिपों)/विधिक अविशिक्षि(यों) के श्रम	निम्न तिथियों के अनुसार	तथा एनपीए की तिथि
TCHHF07 01000100 006377	श्री पंकज कुमार (उचारकर्ता) एवं श्रीमती चंद्र कला (सह—उदारकर्ता)	13/08/2025 तक, र. 11.25,617/= (रुपये ग्वरह लाख पन्नीस इजार आठ सी सत्रह मात्र) की एक शांति	13-08-2025 3f7 03.08.2025

प्रतिभूत परिसंपत्तियों / अवल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : 29.26 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले आवासीय मुखंद के सभी ट्रकड़े और पासंल, जो खसरा संख्या 1237, का हिस्सा है, बिहार मान नागला, तहसील और जिला बरेली, उत्तर प्रदेश विक्री विलेख के अंतर्गत सभी सामान्य सुविधाओं सहित। सीमाएँ पूर्व - दीवान का घर, पश्चिम - विक्रेता का घर, उत्तर - रास्ता 8 फीट, दक्षिण - रास्ता 8 फीट

10200485	श्री ए. तुलासा राग (उथारकर्ता) और श्रीमती गीलम (सह-पधारकर्ता)	13/88/2025 तक, रु. 14,74,372/- (शपये बीदह लाख मीवहत्तर हजार तीन सी बहतर मात्र)	13-08-2025 offe 07:08:2025
प्रतिभूतः परिसंपा	तेयाँ / अवल संपत्तियाँ	/ कंप्रककृत संपत्तियों का विवरण : सभी हिर	से और पार्सलः

आवासीय प्रलैट संख्या 302, जिसका क्षेत्रफल 650 वर्ग फुट हैं, परियोजना "साई होम्स-2" में प्लीट संख्या साई गार्डन-७, शाहबेरी ग्राम परगना और तहसील दावरी, जिला गीतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में स्थित है, जिसमें बिल्डर-खरीदार समझीते के तहत समी सामान्य सुविवाएँ उपलब्ध है।

9764922	श्री सुरेंद्र कुनार (उधारकती) और श्रीमती मीरा कुमारी (सह-एपारकती)	13/08/2025 तक, रु. 8,96,008 /- (रुपये आठ लाख क्रियानबे हजार आठ मात्र)	13-06-2025 3ft 07.06.2025

प्रतिनृत परिसंपत्तियों / अचल संपत्तियों / बंधककृत संपत्तियों का विवरण : "गावत्री आँरा" परियोजना में फ्लैंट संख्या एच–803, आठवी मंजिल पर. 1095 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला, टावर–एच के सभी भाग और पार्सल, प्लॉट संख्या जीएच–11, संक्टर–1 ग्रेंटर नोएडा (पश्चिम) जत्तर प्रदेश–201308 में रिथत, बीबीए के अंतर्गत समी सामान्य सुविवाओं सहित।

*संबंधित मींग सुबनाओं दिनोंकित उपरोंकित में अधिक विशिष्ट रूप में उउलेखितानुसार दर पर माबी ब्याज अतिरिक्त ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क इत्यादि जो कि भुगतान तथा/अधवा वसूली की तिथि तक उपगत हैं। यदि उक्त दायित्वधारक(गण) उपर्युक्तानुसार टीसीएचएफएल को मुगतान करने में विफल हॉगे, तं टीसीएचएफएल समग्र रूप में लागतों एवं परिणामों से संबंधित उक्त दायित्वजारक(कीं)/विधिक उत्तराधिकारी[रियाँ) / विधिक प्रतिनिधि(याँ) के जोखिम पर तपरोक्त प्रतिभूत परिसम्पत्ति(याँ)/अचल सम्पत्ति(याँ) के विरुद्ध सक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू नियमावली के अंतर्गत कार्रवाई करेगी। उक्त दायित्वधारक(कों) / विधिक उत्तराधिकारी(रियों) / विधिक प्रतिनिधि(यों) को उक्त अधिनियम के अंतर्गर प्रतिबंधित किया जाता है कि वे टीसीएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति-अनुमति के बिना विक्रय, पट्टा वं मध्यम से अथवा अन्यथा, उपयुंक्त प्रतिमृत परिसम्पति(यों) / अथल सम्पत्ति(यों) का हस्तौतरण नहीं कर सकेंगे कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों अथवा उनके अंतर्गत विरवित नियमावली का उल्लंघन करता है , अथवा उल्लंधन के लिए दुष्पेरित करता है, उसे अधिनियम के अंतर्गत उपलब्धानुसार कारावास दंड तथा अथवा अर्थदंड दिया जावेगा।

दिनोंक : 26-08-2025 स्थान : नोएडा, बरेली हस्ता /- प्राधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः बेगमपुर खटोला, खांडसा, नजदीक कृष्णा मूर्ति, बसई रोड, गुड़गाँव,

अर्जुन नगर, हरियाणा, इण्डिया, 122001 ई—मेल: adhbhut.ind@rediffmail.com । वेबसाइट: www.adhbhutinfra.in Tel.:+91-9711663881 | CIN: L51503HR1985PLC121303

चालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक एवं ई-वोटिंग की सूचना

अद्भूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की चालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम"), मंगलवार, 16 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11:00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बेगमपुर खटोला, खांडसा, नजदीक कृष्णा मूर्ति, बसई रोड, गुड़गाँव, अर्जुन नगर, हरियाणा, इण्डिया, 122001 में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए आयोजित की जानी तय की गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और सिक्योरीटीज एण्ड एक्सचेन्ज बोर्ड ऑफ इण्डिया (सेबी) द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2024-25 की वाषिकं रिपोर्ट के साथ वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम), की सूचना की इलेक्ट्रानिक प्रत्तियाँ उन शेयरधारकों को भेजी गई हैं, जिनके नाम शुक्रवार, 15 अगस्त, 2025 को कारोबार के अंतिम समय में सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देंगे और जिनके ईमेल पते कम्पनी अथवा मैसर्स बीटैल फाईनेन्सियल एण्ड कम्पयूटर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार एण्ड शेयर हस्तांतरण एजेन्ट के पास पंजीकृत हैं, को उपरोक्त कागजात भेजने का कार्य शनिवार, 23 अगस्त, 2025 को पूरा कर लिया है।

इसके अलावा, कम्पनी के सदस्यों को इलेक्ट्रानिक माध्यमों ("रिमोट ई–वोटिंग") द्वारा चालीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) में प्रस्तावित प्रस्ताओं पर मतदान करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता महसूस करती है। कम्पनी ने रिमोट ई-वोटिंग की स्विधा प्रदान करने के लिए एजेन्सी के रूप में सेन्ट्रल डिपॉटरीज सविसेस (इण्डिया) लिमिटेड (जिसे यहाँ पर "सीडीएसएल " संदर्भित किया गया है) की सेवायें ली हैं। कम्पनी के वे सदस्य, जिनके शेयर भौतिक अथवा डीमैटीलाइज रूप में हैं, साथ ही वे व्यक्ति जिनके नाम 9 सितम्बर, 2025 की कट-ऑफ तिथि तक डिपॉटरीज द्वारा बनाये गये सदस्यों की पंजिका अथवा लाभदाई स्वामी की पंजिका में दर्ज हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ—साथ एजीएम में मतदान करने के हकदार होंगे। रिमोट ई—वोटिंग की अवधि **शनिवार**. सितम्बर 13, 2025 (9:00 प्रातः आईएसटी) पर प्रारम्भ होकर और सोमवार, सितम्बर 15, **2025 (5:00 सायं आईएसटी)** को समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोंटिंग द्वारा बैठक से पहले अपना वोट दे दिया है वे भौतिक माध्यम में बैठक में भाग ले सकतं हैं लेकिन फिर से एजीएम में वोट देने के हकदार नहीं होंगे।

इसके अलावा, कम्पनी ने मैसर्स एएएसके एण्ड एसोसियेट्स एलएलपी (LLPIN- AAD-2934) को ई-वोटिंग प्रक्रिया/मतपत्र प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालन के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम के दौरान वोटिंग का परिणाम एजीएम की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर घोषित किया जायेगा। जाँचकर्त्ता के रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कम्पनी की वेबसाइट https://www.adhbhutinfra.in एवं साथ में बोम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज, जहाँ कम्पनी के शेयर्स सचीबद्ध हैं i.e. www.bseindia.com पर भी प्रदर्शित किये जायेंगे।

एजीएम की सूचना एवं 2024-25 की वाषिर्क रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.adhbhutinfra.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com एवं बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com पर उपलब्ध है। रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित विस्तारित निर्देशों के लिए सदस्य चालीसवीं एजीएम की सूचना के 'नोट्स' भाग का संदर्भ लें।

यदि आपको ई-वोटिंग के सम्बन्ध में कोई प्रश्न अथवा समस्या हो, तो helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल द्वारा अथवा 02223058738 एवं 022-23058542/ 43 पर सम्पर्क कर सकते हैं। सदस्य साथ में कम्पनी को adhbhut.ind@rediffmail.com पर लिख भी सकते हैं।

> मंडल के आदेशानसार कृते अदभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हस्ता०/-शिवानी दीक्षित

> > कम्पनी सचिव

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, १-10, बहादुर शाह

DMI HOUSING FINANCE जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, फोन: +91 11 41204444 F: +91 11 41204000 dmi@dmihousingfinance.in U65923DL2011PTC216373 {नियम 8 (1) देखें} कब्जे की सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, प्राधिकृत अधिकारी ने डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड की ओर से वित्ती आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दिनांक 15 मार्च, 2025 को एक माँग नोटिस जारी किया जिसमें ऋणी महेंद्र पुत्र सूबे सिंह और सुरजीत पुत्र सूबे सिंह, ममता देवी पत्नी सुरजीत, विद्या देवी पत्नी सूबे सिंह, सूबे सिंह पुत्र मान सिंह (सह-ऋणी) (ऋण खाता संख्या GG1191208) को नोटिस में वर्णित राशि रू. 6,92,860/-(रूपये छ: लाख बानवे हजार आठ सौ साठ मात्र) दिनांक 03 मार्च, 2025 तक उक्त नोटिस के मिलने की तारीख़ से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहा। अतः इस नोटिस के माध्यम से ऋणी एवं जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए दिनांक 22 अगस्त 2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। अधिकारियों और आप जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन डीएमआई हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में

अचल संपत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते हैं जिसमें 'प्लॉट / प्लॉट / मकान नंबर 'स्थानांतरण विलेख दस्तावेज़ नंबर 2486, 0 कनाल 4 मरले 1 सरसई (125 वर्गगज) आबादी डेह (लाल डोरा), वाका ग्राम डींग, तहसील पूंडरी, जिला कैथल, हरियाणा 136026' में स्थित है। सीमाएं निम्न है:- उत्तर में: भूला राम की संपत्ति, दक्षिण में: रणधीर का मकान और रास्ता, पूर्व में: रमेश का मकान और गोपी का मकान, पश्चिम में: जसवंत की संपत्ति। हस्ताक्षर/- (प्राधिकृत अधिकारी)

दिनांकः 25/08/2025, स्थानः कथल, हरियाणा

उल्लेखित राशि एवं उस पर देव ब्याज के अध्यधीन होगा।

डीएमआई हाउसिंग फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड केन फिन होम्स लिमिटेड Can Fin Homes Utd

सी-18, परम प्लाजा, आर.डी.सी., गाजियाबाद, 201001, संपर्कः 0120-4086097, 7625079135 ई-मेल ghaziabad@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699 नियम 8(6) के परंतुक देखें अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना


वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ के साथ पिटत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम ८(६) के प्रावधान के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार (रों) तथा गारंटर (रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, गाजियाबाद शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, श्रीमती सोनिया पत्नी भूपेन्द्र और श्री भूपेन्द्र पुत्र राजेंदर कुमार (ऋणी) और श्री लक्ष्मण कुमार पुत्र थावरिया कुमार (जमानतकर्ता) की तरफ केन फिन होम्स लिमिटेड की 25.08.2025 तक बकाया राशि रू. 49,13,500/- (रूपये उड़नचास लाख तेरह हजार पांच सौ मात्र) उस पर आगे ब्याज एवं अन्य प्रभारों इत्यादि की वसूली के लिए दिनांक 29.09.2025 को ''जैसी है जहां है'', जैसी है जो है" तथा ''जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी। सुरक्षित मूल्य रू. 27,80,000/- (रू. सत्ताईस लाख अस्सी हजार मात्र) तथा धरोहर राशि जमा रू. २,७८००/- (रू. दो लाख अटहत्तर हजार मात्र) होगी।

सम्पत्ति का विवरणः संपूर्ण प्रथम तल फ्लैट, 48 वर्ग यार्डस, संपत्ति प्राइवेट नं. बी, संपत्ति नं. 179 से, खसरा नं. ७४७ से, गांव किलोकरी, जीवन नगर, दिल्ली, पिन कोड-११००१४, चौहद्दीः पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः प्रवेश/३० मीटर रोड़, उत्तरः संपत्ति १७९/१ का हिस्सा, दक्षिणः मकान नं. १७९ ए। ज्ञात भारः शून्य

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्ते केन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (www.canfinhomes.com) में उपलब्ध कराई गई है। कृपया निम्नलिखित लिंक देखें /www.cantinhomes.com/ SearchAuction.adbx

Link for participating in e-auction: www.bankeauctionwizard.com दिनांकः २५.०८.२०२५ स्थानः गाजियाबाद। हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड



Bampsl Securities Limited Reg. Off. 100A -Cycle Market, Jhandewalan Extn. New Delhi-110055 | Phone No.: 9810017327 Email ID: bamps/securities@yahoo.co.in

NOTICE NOTICE is hereby given that the 30th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Monday, September 29th, 2025 at 5.00 P.M. through Video conferencing ('VC')/OTHER Audio Visual Means ('OAVM') Facility to transact the following business to transact such

Electronic copy of Notice of 30th AGM and instructions for remote evoting and Annual Report 2024-25, have been sent to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository participant(s) for communication purposes. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depository, please follow below instructions to register your email ID for obtaining annual report

Ordinary and Special business as set out in the Notice convening the

Physical Holding: Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, Alankit Assignments Limited at rta@alankit.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back), PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address.

for FY 2024-25 and login details for e-voting.

Demat Holding: Please contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP.

Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Securities Depository Limited (NSDL) through their portal www.evoting.nsdl.com to enable the members to cast their votes electronically. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting may be addressed to Shri Bhisham Kumar Gupta, Managing Director, Bampsl Securities Limited, Email: bampslsecurities@yahoo.co.in

The details pursuant to the provisions the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the said Rules as amended, are given here under:

 The Ordinary and the Special Business as set out in the Notice of AGM may be transacted through voting by electronic means. 2. Date and time of commencement of voting through electronic means: September 26, 2025 at 9:00 A.M.

3. Date and time of end of voting through electronic means: September 28, 2025 at at 5:00 P.M.

4. Voting through electronic means shall not be allowed beyond 5:00 p.m on September 28, 2025 5. The cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic

means or at the AGM is September 22, 2025 6. Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. September 22, 2025 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote evoting then you can use your existing User ID and password for casting your vote.

The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members.

8. The members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. 9. A person, whose name is recorded in the register of members or in

the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only i.e. on September 22, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting. 10. The Notice of AGM is displayed on the Website of Company on

www.bampslsecurities.co.in and also on the NSDL's website https://www.evoting.nsdl.com 11. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked

Members available at the downloads section of

www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990 The Registers of Members and Share Transfer Books of the Company shall remain closed from September 22, 2025 to September 30, 2025

Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for

(both days inclusive) for the purpose of the AGM By Order of the Board

New Delhi Bhisham Kumar Gupta August 25, 2025 Managing Director

epaper.jansatta.com

स्थान : गुरूग्राम

दिनांक : 25.08.2025